

## भारत की कार्यस्थल संस्कृति

### प्रलिमिंस के लिये:

[ILO, समवर्ती सूची, वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता, 2020](#)

### मेन्स के लिये:

भारत की कॉर्पोरेट संस्कृति: नियामक ढाँचा, सफ़ारिशें और चुनौतियाँ

[स्रोत: द हट्टि](#)

### चर्चा में क्यों?

अन्ना सेबेस्टियन नामक चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुखद मौत, जो कथित तौर पर कार्य से संबंधित तनाव (Work-Related Stress) के कारण हुई, भारत में वषिकृत कार्यस्थल संस्कृति को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है, तथा कर्मचारियों के नरितर शोषण पर प्रकाश डालती है।

### नोट:

- [अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन](#) के हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत विश्व में सर्वाधिक कार्य करने वाले देशों में से एक है, जहाँ श्रमिक औसतन प्रति सप्ताह 46.7 घंटे कार्य करते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, भारत का 51% कार्यबल प्रति सप्ताह 49 या उससे अधिक घंटे कार्य करता है, जिससे विश्व भर में वसितारति कार्य घंटों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है।

//

## Top 10 countries with employees working 49 hours or more per week

| Country              | Share of employed working 49 or more hours per week |
|----------------------|---|
| Bhutan               | 61 per cent   |
| India                | 51 per cent   |
| Bangladesh           | 47 per cent   |
| Mauritania           | 46 per cent   |
| Congo                | 45 per cent   |
| Burkina Faso         | 41 per cent   |
| Pakistan             | 40 per cent   |
| United Arab Emirates | 39 per cent   |
| Lebanon              | 38 per cent   |
| Myanmar              | 38 per cent   |

### भारत की कार्यस्थल संस्कृति से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **वषिकृत कार्य वातावरण (Toxic Work Environment):**
  - कई नगिर्मों/कंपनियों में लंबे समय तक कार्य करना और तनाव सामान्य बात हो गई है, जो लाभ मार्जनि एवं लाभ-हानि पर नरितर ध्यान केंद्रति करने से प्रेरति है ।
  - लागत में कटौती करते हुए कर्मचारियों से अत्यधिक कार्य कराने की प्रथा अक्सर बर्नआउट का कारण बनती है, क्योंकि कंपनियों "संगठनात्मक तनाव (Organisational Stretch)" और "परविरत्तनशील वेतन (Variable Pay)" जैसे शब्दों का उपयोग करके शोषण को उचित ठहराती हैं ।
- **कार्य संस्कृति संबंधी मुद्दों पर प्रतिक्रियाएँ:**
  - आचार संहति और कार्य-जीवन संतुलन नीतियों जैसी कॉर्पोरेट पहलों में अक्सर संतुलन का अभाव होता है, जिससे कार्यस्थल पर

वधिकात्ता के मूल कारणों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं हो पाता ।

■ **अप्रभावी नेतृत्व और जवाबदेही का अभाव:**

- **कार्यस्थल पर उत्पीड़न** या अपमानजनक भाषा का सामना करने वाले कर्मचारियों के लिये वधिकि सहायता का अभाव एक ऐसा वातावरण विकसित करता है, जहाँ ऐसे अनुचित व्यवहार बनिा रोक-टोक जारी रह सकते हैं ।
- कई कंपनियों में नषिपादन **मूल्यांकन प्रणालियों** को पक्षपातपूर्ण माना जाता है, जिसके कारण कर्मचारियों में अनुचित व्यवहार की भावना उत्पन्न होती है, जिससे असंतोष और वधिकात्त वातावरण बना रहता है ।

■ **सार्वजनिक क्षेत्र बनाम नजिी क्षेत्र की गतशीलता:**

- **सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन** आमतौर पर अधिक मज़बूत नौकरी सुरक्षा और अधिक सहायक कार्य वातावरण प्रदान करते हैं, तथा इसमें संघ की भी मदद मिलती है जो कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने में मदद करती है ।
  - यह अंतर एक स्वस्थ कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये नजिी क्षेत्र में बेहतर कार्यप्रणाली की आवश्यकता के बारे में प्रश्न उठाता है ।

■ **लंबे समय तक काम करने से जुड़ी मौतें:**

- वर्ष 2016 में, **वशिव स्वास्थ्य संगठन** और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुमान लगाया था कि लंबे समय तक कार्य करने के कारण **स्ट्रोक और इस्कैमिक हृदय रोग के कारण 745,000 मौतें हुईं, जो कि वर्ष 2000 से 29% की वृद्धि दर्शाता है ।**
- 60-79 वर्ष की आयु वाले वे श्रमिक जो 45 से 74 वर्ष की आयु के बीच नरितर प्रति सप्ताह 5 घंटे से अधिक कार्य करते थे, उनकी मृत्यु दर अधिक थी ।

■ **GDP और कार्य घंटों के बीच संबंध:**

- ILO ने खुलासा किया है कि कम कार्य घंटे वाले देशों में अक्सर प्रतिव्यक्ति **सकल घरेलू उत्पाद** अधिक होता है । नॉर्वे (33.7 घंटे) और नीदरलैंड (31.6 घंटे) जैसे देश **कामगारों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए कम कार्य सप्ताह अवधारणा को बनाए रखते हैं, जिससे कुल मिलाकर आर्थिक समृद्धि बढ़ती है ।**
  - इसके विपरीत, भारत और भूटान जैसे देशों में कार्य घंटे अधिक हैं, **लेकिन प्रतिव्यक्ति आय कम है, जिससे पता चलता है कि आर्थिक सफलता के लिये अधिक कार्य घंटे आवश्यक नहीं हैं ।**





## TYPES OF LABOUR LAWS IN INDIA

### CONDITIONS OF WORK

- Factories Act, 1948
- The Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970
- Shops and Commercial Establishments Act

### WAGES & REMUNERATION

- The Minimum Wages Act, 1948
- Payment of Wages Act, 1936

### SOCIAL SECURITY

- Employees' Provident Fund Act, 1952
- Workmen's Compensation Act, 1923
- Employees State Insurance Act, 1948

### EMPLOYMENT SECURITY & INDUSTRIAL RELATIONS

- The Industrial Disputes Act, 1947
- Industrial Establishments (Standing Orders) Act, 1946



## अन्य देशों में कार्यस्थल संस्कृति

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:**
  - लंबे समय तक कार्य करने की मांग वाली कार्य संस्कृति को बनाए रखते हुए लचीलेपन (दूरस्थ कार्य, लचीले घंटे आदि) को प्रोत्साहित करना।
  - बोनस और स्टॉक विकल्पों के साथ प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन इससे प्रतिसपर्द्धा और आय असमानता उत्पन्न होती है।
  - मजबूत कानूनी संरक्षण, हालाँकि श्रम कानून विभिन्न राज्य में अलग-अलग हैं साथ ही कुछ क्षेत्रों में संघ कमजोर हैं।
- **यूरोप:**
  - सख्त श्रम कानूनों (जैसे, फ्रांस में 35 घंटे का कार्य सप्ताह) के साथ कार्य-जीवन संतुलन पर जोर दिया गया।
  - अधिक कर्मचारी सुरक्षा के साथ सम्मानजनक और सहयोगात्मक कॉर्पोरेट संस्कृति।
  - अधिक न्यायसंगत मुआवज़ा और लाभ; मजबूत श्रम सुरक्षा और मजबूत संघ।

## भारत में श्रमिकों के संबंध में नियामक ढाँचा क्या है?

- **संवैधानिक ढाँचा:** संविधान के तहत, श्रम संबंधी विषय [समवर्ती सूची](#) में है तथा इसलिये, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें केंद्र के लिये आरक्षणित कुछ मामलों के अधीन कानून बनाने के लिये सक्षम हैं।
- **न्यायिक व्याख्या: रणधीर सहि बनाम भारत संघ, 1982** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "भले ही संविधान में 'समान कार्य के लिये समान वेतन' के सिद्धांत को परभाषित नहीं किया गया है, यह एक लक्ष्य है जिसे [अनुच्छेद 14, 16 और 39 \(c\)](#) के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।
  - **अनुच्छेद 14:** यह भारत के राज्यक्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है।
  - **अनुच्छेद 16:** यह सार्वजनिक रोज़गार के मामलों में समान अवसर के अधिकार की बात करता है।
  - **अनुच्छेद 39(c):** यह सुनिश्चित करता है कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहतिकारी "संकेंद्रण" न हो।
- **वधायी ढाँचा:** सरकार ने कार्य करने की स्थितियों में सुधार और श्रम कानूनों को सरल बनाने के लिये कई वधायी और प्रशासनिक पहल की हैं। हाल ही में **4 श्रम संहिताओं** का समेकन किया गया है, जिसे अभी लागू किया जाना है।
- **श्रम संहिता:**
  - [वेतन संहिता, 2019](#)
  - [औद्योगिक संबंध संहिता, 2020](#)
  - [सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020](#)
  - [व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020](#)
- **कारखाना अधिनियम, 1948:**
  - **कारखाना अधिनियम की धारा 54** के अनुसार, किसी भी दिन दैनिक कार्य घंटे नौ घंटे से अधिक नहीं हो सकते।
    - प्रत्येक कर्मचारी को कम-से-कम आधे घंटे का अंतराल अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है तथा ऐसे अंतराल से पहले 5 घंटे से अधिक कार्य नहीं करना चाहिये।
  - **अधिनियम की धारा 51** में कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी से एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता।
- **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948:**
  - प्रति सप्ताह आवश्यक 9 या 48 घंटों से अधिक किसी भी घंटे या घंटे के भाग के लिये, ओवरटाइम वेतन वास्तविक दर से दोगुना होना चाहिये।

## भारत में कार्य संस्कृति से संबंधित कौन-से सुधार किये जा सकते हैं?

- **नियामक ढाँचा:**
  - कार्यस्थल पर वषिकृत संस्कृति को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये एक विनियामक ढाँचा आवश्यक है। इसमें कॉर्पोरेट बोर्ड को कार्यस्थल की स्थितियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिये जवाबदेह बनाना शामिल हो सकता है।
  - कर्मचारियों के साथ व्यवहार और कार्यान्वयन मूल्यांकन के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करने से दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहारों को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **नगिर्मों में सांस्कृतिक बदलाव:**
  - कंपनियों को सम्मान और नष्पिपक्षता की संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिये, जहाँ श्रमिकों के योगदान को महत्त्व तथा उचित मुआवज़ा दिया जाए।
  - कार्य-जीवन संतुलन और ईमानदारी से कर्मचारी भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से की जाने वाली पहलों से एक स्वस्थ कार्य वातावरण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **जागरूकता और समर्थन:**
  - कार्यस्थल संस्कृति के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और विचार-विमर्श करने से कर्मचारियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और अपने अधिकारों की मांग को सशक्त बनाया जा सकता है।
  - भारत में भी इसी प्रकार के अधिकार अंतरराष्ट्रीय मानदंडों से प्रेरित होकर प्राप्त किये जा सकते हैं, जो श्रमिकों को मानसिक तनाव के लिये अधिकारों की मांग करने का अवसर प्रदान करते हैं।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR):**
  - नगिर्मों को अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रणनीतियों में कार्यस्थल संस्कृति में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को शामिल करना चाहिये, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि कर्मचारियों का कल्याण दीर्घकालिक सफलता का अभिन्न अंग है।

